

cannot talk to everybody. I can again discuss this matter. There is no problem.

11.20 hrs.

### MEMBERS SWORN

Shri Bharat Kumar Odedra (Porbandar)

Prof. Saif-ud-din Soz (Baramulla)

Shri Gotte Bhoopathy (Peddapalli)

SECRETARY : Shri Abdul Rasheed Kabuli.

(Interruptions)

MR. SPEAKER : It is wrong ; not allowed.

(Interruptions)

SOME HON. MEMBERS : It is contempt of the House.

(Interruptions)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : प्रधान मंत्री बैठी क्या कर रही हैं ?

(व्यवधान)

इनको माफी मांगनी होगी ।

(व्यवधान)

अगर यह माफी नहीं मांगेंगे तो सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी। यह देश की सुप्रीम पार्लियामेंट है, कोई सदर बाजार नहीं है। शर्म की बात है।

SHRI CHANDRA SHEKHAR (Ballia) : May I make a request to you ?

MR. SPEAKER : I do not approve of it at all.

(Interruptions)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष जी, जो

कुछ हुआ है अशोभनीय और निन्दनीय है। आप इनसे माफी मंगवाइये।

अध्यक्ष महोदय : देखिये साहब, आप सारे माननीय सदस्य हैं। इस हाउस में जो भी चुनकर, इलेक्शन कमीशन की तरफ से डिक्लेयर हो कर आता है उस माननीय सदस्य को शपथ लेने का पूरा अधिकार है। अगर किसी को कोई है तो यहां भी आप अपनी बात कहते हैं, इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन पेटिशन है, हाई कोर्ट है, सारा कुछ है, कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके की बात आप यहां करते हैं मिस्टर टाइटलर, आपने अच्छा नहीं किया है।

I disapprove of it.

### MEMBERS SWORN—Contd.

Shri Abdul Rashid Kabuli (Srinagar)

11.25 hrs.

### OBITUARY REFERENCE

MR. SPEAKER : Hon. Members, as we meet today after an interval of two and half months, it is my sad duty to inform the House of the passing away of a former Speaker of this House, Sardar Hukam Singh who passed away at New Delhi on 27 May, 1983 at the age of 88.

A noted Parliamentarian, Sardar Hukam Singh was a member of Constituent Assembly, Provisional Parliament and the first three Lok Sabhas during the years, 1948-67.

In March, 1956, Sardar Hukam Singh, at that time a member of Opposition and a member of the Panel of Chairmen, was elected to the Office of the Deputy Speaker. He was re-elected as Deputy Speaker of Second Lok Sabha.

He was unanimously elected to the high office of the Speaker, Third Lok Sabha in April, 1962 and continued in that Office till March, 1967.

Sardar Hukam Singh had an amiable personality. He was deeply devoted to

Parliamentary institutions and made a very distinguished contribution as a Presiding Officer in the form of decisions and rulings from the Chair.

As a Deputy Speaker in the Second Lok Sabha, he was the Chairman of the Committee of Privileges, the Committee on Private Members' Bills and Resolutions and the Committee on Subordinate Legislation.

In his capacity as the Speaker of Lok Sabha, he was elected as the first President of the Institute of Constitutional and Parliamentary Studies.

During his tenure as Speaker, he led Indian Parliamentary Delegations to USSR and Mangolian Peoples Republic, United States of America, West Germany, United Kingdom and Philippines. He also led Indian Delegations to Commonwealth Parliamentary Conference held at Lagos in Nigeria and Kuala Lumpur in Malaysia. He served as a member of the General Council of the Commonwealth Parliamentary Conference for two years.

Sardar Hukam Singh was appointed as Governor of Rajasthan in April, 1967 and served there till 1972.

A deeply religious man, Sardar Hukam Singh was an intellectual, social reformer and an able administrator. He won widespread respect for his qualities of head and heart, unfailing sense of courtesy and dignified behaviour.

In his passing away, the country has lost a dedicated son who devoted himself to the service of people and the democratic institutions.

We deeply mourn the loss of this friend and I am sure the House will join me in conveying our condolences to the bereaved family.

**THE PRIME MINISTER (SHRIMATI INDIRA GANDHI)** : Sir, I rise to express our sorrow at Sardar Hukam Singh's death. He presided over the proceedings of this august House with dignity and impartiality and earnestness and earned the respect of all sections of the House.

Sardar Hukam Singh came to this high office after many decades of public service in Punjab. Later, he rendered further distinguished service as Governor of Rajasthan.

Please extend our deep sympathy to the family and friends.

**SHRI SAMAR MUKHERJEE (Howrah)** : I fully associate with the sentiments expressed here by you and by the Prime Minister. Though I am not personally acquainted with Sardar Hukam Singh and his works, his name was long before known to me as one of the outstanding parliamentarians and one of the notable Speakers. His contributions have already been mentioned. A loss of this type of outstanding parliamentarian is really a loss to our parliamentary democracy and to the people.

So I request you to convey our condolences to the bereaved family.

**श्री रशीद मसूद (सहारनपुर)** : अध्यक्ष महोदय, इंसान की पैदाइश अपने में खुद फना का पैगाम लेकर आती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फना होने के बाद भी अपनी याद की एक छाप तवारीख पर नुमायां छोड़ जाते हैं। सरदार हुकम सिंह ऐसे लोगों में से थे जिन्होंने अपनी छाप तवारीख पर छोड़ी। वह एक मामूली किसान के घर पैदा हुए, अपनी मेहनत, लगन, अनथक कोशिशों और जनता की सेवा से उन्होंने हिन्दुस्तान की तवारीख में एक ऐसा मुकाम बनाया। इस पार्लियामेंट के स्पीकर जब सरदार हुकम सिंह हुए तो उनसे पहले जो हमारी इस पार्लियामेंट के स्पीकर थे वह नुमायां तौर पर इस की तवारीख में एक स्थान रखते थे, एक छाप इस मुल्क की पार्लियामेंट की डेमोक्रेटिक हिस्ट्री पर उन्होंने डाली थी। इसलिए मैं समझता हूँ कि उनका काम बहुत ज्यादा मुश्किल था। मगर उन्होंने जिस खूबी से और खुशनसीबी से उस काम को अन्जाम दिया उसकी नज़ीर मिलना मुश्किल है। आज ऐसे लोग बहुत कम हैं कि जिनको इस गुरबत के मुकाम से उठ करके और लड़ करके इस मुकाम तक पहुँचने का मौका मिले।

मैं अपनी जानिब से और अपनी पार्टी की

جانیب سے سرदार ہکام سینگ جی کو خیرا جے اکی دت پش کرتا ہوں اور آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ میری جانیب سے اور میری پارٹی کی جانیب سے انکی فمیلی تک یہ پیغام پہنچا دیا جائے کہ ہم انکے گم میں شامل ہیں۔

شری رشید مسعود (سپیکر): ادھی کشی ہو دے۔  
انسان کی پیدائش اپنے میں خود فنا کا پیغام لے کر آتی ہے۔ لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو فنا ہونے کے بعد بھی اپنی یاد کی ایک چھاپ نمایاں چھوڑ جاتے ہیں۔ سر دار حکم سنگھ ایسے لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اپنی چھاپ تاریخ پر چھوڑی ہے۔ وہ ایک معمولی گناہ کے گھر پیدا ہوئے اپنی محنت لگن انتھک کوششوں اور جتنا کی سیوا سے انہوں نے ہندوستان کی تاریخ میں ایک ایسا مقام بنایا۔ اس پارلیمنٹ کے اسپیکر کے سر دار حکم سنگھ جی کے تو اچھے پہلے تو ہماری اس پارلیمنٹ کے اسپیکر تھے وہ نمایاں طور پر اس کی تاریخ میں ایک استقامت رکھتے تھے ایک چھاپ اس ملک کی پارلیمنٹ کی ڈیموکریٹک ہسٹری پر انہوں نے کافی لکھی اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کام بہت زیادہ مشکل تھا۔ مگر انہوں نے جس خوبی سے اولد خوش اخلاقی سے اس کام کو انجام دیا اس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ آج ایسے لوگ بہت کم ہیں کہ جن کو اجرت کے مقام سے اٹھ کر کے اور بڑے بڑے کے اس مقام تک پہنچنے کا موقع ملے۔

میں اپنی جانب سے اور اپنی پارٹی کی جانب سے سر دار حکم سنگھ جی کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور میری درخواست کرتا ہوں کہ میری جانب سے اور میری پارٹی کی جانب سے ان کی فمیلی تک یہ پیغام پہنچا دیا جائے کہ ہم ان کے غم میں شامل ہیں۔

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): Mr. Speaker, Sir, we are offering our tribute today to one of the most towering personalities of the country who occupied the high office of Speaker with great distinction, dignity and impartiality. When Sardar Hukam Singh occupied the Chair which you are occupying today, he neither looked to the left nor looked to the right but looked straight to the portrait, which is hung there, of Shri Vithalbhai Patel who remained a challenge to the establishment, who maintained the dignity of this House, who established the supremacy of the Legislature over the Executive. He also contributed through his rulings to a free and fair debate and discussion on various matters, including the privileges and the rights of this House. I was going through the various rulings given by Sardar Hukam Singh as Speaker and I found that on a number of occasions he did something that needs to be emulated. The best tribute to Sardar Hukam Singh will come not only from the Members of this House but from you, Sir, because there is something to be emulated. For instance, on 2nd August, 1966, when some procedural matters regarding the Minister's attitude to the PAC Reports were raised through a privilege motion, he did not take it as a technical issue and did not say 'Not admitted; not admitted'; he said that the procedural matter needed to be discussed in the House and he allowed the matter to be raised by Shri Madhu Limaye. The matter was discussed. The Finance Minister said that it was really a healthy and democratic debate on both sides. For half an hour the admissibility was discussed and though ultimately it was rejected, the whole House was able to hear a lot. Such was the great work that he did in this House, he protected the rights and privileges of every Member, and that is really the legacy of this great man who has passed away. With his religious background he had imbibed deep religious values into the institution for which he worked, he brought the democratic spirit to this institution, he brought fearlessness to this institution, he brought impartiality to this institution. To preserve these values and to inculcate them in the life of this Lok Sabha is a real tribute to Sardar Hukam Singh.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) :  
 अध्यक्ष महोदय, सरदार हुकम सिंह के निधन से एक व्यक्तित्व हमारे बीच से उठ गया है और सार्वजनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रिक्त हो गया है। अनेक पदों को गरिमा के साथ अलंकृत करने के बाद जब सरदार हुकम सिंह जी ने राज्यपाल के पद से अवकाश ग्रहण किया तो उन्होंने बड़ी शांति और धैर्य से जीवन की संघ्या में प्रवेश किया। उस समय मैंने एक निस्पृहता, एक निरासक्ति उनके निकट अनुभव की। मेरी आखिरी मुलाकात उनसे उस समारोह में हुई थी जो डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आयोजित हुई थी। सरदार हुकम सिंह जी डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा गठित नेशनल डिमोक्रेटिक फ्रंट के सदस्य थे, जो 1952 में लोक सभा में गठित हुई थी। सरदार साहब पहले अकाली दल से सम्बद्ध थे लेकिन उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के पद पर बैठने के बाद उन्होंने अपने को सक्रिय राजनीति से अलग किया और निष्पक्षता के साथ कर्तव्य पालन का प्रयत्न किया। वे दृढ़ भी थे, उदार भी थे, नियमों के प्रति जागरूक भी थे और व्यावहारिक भी थे। वे जानते थे संसद भारतीय गणराज्य के हृदय की धड़कन का प्रतिनिधित्व करती है। यह धड़कन अगर सुनी नहीं गई, इस धड़कन को अवरुद्ध करने का प्रयत्न हुआ तो लोकतन्त्र सफल नहीं होगा, सार्थक नहीं होगा।

अध्यक्ष के नाते एक प्रश्न जो लगातार उनके मन को मथता था वह यह था कि अध्यक्ष को अपने चुनाव के लिए बहुमत पार्टी पर निर्भर रहना पड़ता है लेकिन उसे अपने कर्तव्य का निष्पक्षता के साथ पालन भी करना पड़ता है। मैं उनके भाषणों का संग्रह देख रहा था, आप क्षमा करें, मैं उसमें से एक अंश उद्धृत करना चाहता हूँ :

“There is another thing worth consideration. The Speaker has to seek election every five years. To get himself elected he must have the support of his Party. It is in the interests of the majority party that the Speaker commands the confidence and respect of the minority. But this is seldom realised and the ruling party on certain

occasions expects some favours. If the Speaker agrees, then he must be charged with partiality. If he refuses, then next time there will be pressure in his party that he must be replaced.”

सरदार हुकम सिंह ने जो प्रश्न उस समय खड़ा किया था वह आज भी अनिर्णीत है। उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही हो सकती है कि सत्ता-पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों मिलकर बैठें और कोई ऐसा प्रबन्ध करें जिसमें एक बार अध्यक्ष निर्वाचित हो जाने के बाद वह दल से सम्बन्ध नहीं रखेगा, विरोधी दल चुनाव में उसका विरोध नहीं करेंगे, वह निर्विरोध निर्वाचित होगा और सारे सदन का, भावना में भी और व्यवहार में भी, विश्वास सम्पादन करके दिखायेगा।

अध्यक्ष महोदय, उनके निधन से मुझे ऐसा लगता है मेरी व्यक्तिगत क्षति हुई है। मुझे उनके निकट काम करने का मौका मिला था। उनके निधन से आज हम सभी दुःखी हैं, आप हमारी संवेदनाएं उनके परिवार तक पहुंचा दें।

SHRI C.T. DHANDAPANI (Pollachi) :  
 Glowing tributes have been paid to the past Speaker of this House. He was one of the noted parliamentarians of our time. He took social service as his political career as soon as he came out of the College. Despite the fact that he was a social reformer, he was an intellectual, administrator and a parliamentarian.

As the previous speakers have stated, he set a precedent how the office of Speaker should function and he was also a Deputy-Speaker elected from the Opposition.

He remained as a Member of the Opposition and had completed his term as Deputy-Speaker. He was a great personality of our time. Of course, it is a great loss to our country.

I request you to convey the condolences of our Party to the bereaved family.

MR. SPEAKER : Shri Indrajit Gupta.  
 Not here. Shri Ramavatar Shastri.

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष जी, लोकसभा के भूतपूर्व अध्यक्ष, सरदार हुकम सिंह, अब हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन जनतन्त्र को मजबूत करने के लिए या समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो उन्होंने कार्य किए, वे हमारे और आपके सामने हैं। जरूरत इस बात की है कि हम उनके उन कार्यों का अनुसरण करें। जनतन्त्र को मजबूत बनाने में और संसद को चलाने में जो भी उनका योगदान रहा, उसका अनुसरण करके ही हम उन्हें अपनी सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं अपने दल की ओर से और अपनी ओर से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके शोक संतप्त परिवार को आपकी मारफत अपनी संवेदना भेजता हूँ। आशा है आप उनके परिवार तक हमारी भावना को भलीभांति पहुंचा देंगे।

श्री ए०नीलालोहितादसन नाडार (त्रिवेन्द्रम) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के भूतपूर्व अध्यक्ष, सरदार हुकम सिंह, के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपने और इस सदन के भिन्न नेताओं ने जो बातें बताई हैं, उनसे पूर्ण रूप से सहमति प्रकट करता हूँ। चाहे द्वितीय लोकसभा के उपाध्यक्ष होने के नाते हो चाहे तृतीय लोकसभा में अध्यक्ष होने के नाते हो, उन्होंने इस सदन के संचालन में जो योगदान दिया है, वह सदन के इतिहास का अंग बन गया है। गवर्नर होने के नाते हो या अध्यक्ष होने के नाते हो, हमारी संसदीय प्रणाली के इतिहास में उनका नाम अमर रहेगा ही। मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

SHRI DHARAM BIR SINHA (Barh) : Mr. Speaker, Sir, I join my friends in paying our tributes to Sardar Hukam Singh. He created many precedents in the House. Also the leadership that he has provided to the Conference of Presiding Officers was not only to Lok Sabha but also to the Legislatures all over the country at a critical period which came in the Legislatures in later years.

He was a tall person politically and, as a leader of the Parliamentary Institution. I join my friends in conveying my tributes to him.

SHRI TRIDIB CHAUDHURI (Berhampore) : Mr. Speaker, I associate myself with the tributes that have been paid to the memory of Sardar Hukam Singh who was one of our great Speakers. Those of us like myself who have had the privilege to see him at work as a Member of the Panel of Chairmen, then as Deputy-Speaker and then as Speaker of this august House will always fondly remember the fine way in which he blended sweet reasonableness with firmness and strict adherence to democratic and parliamentary principles. It is hardly necessary for me to add anything further to the tributes which have been paid by various sections of this House and leaders of parties and groups to different aspects of his contributions to our parliamentary life and to the strengthening of democratic traditions in the country. I once again join my voice with the sentiments that have been expressed here and we wish that you may convey these sentiments to the bereaved family.

SHRI G.M. BANATWALLA (Ponnani) : Mr. Speaker, Sir, my party associates itself with the sentiments expressed on the sad demise of our former Speaker, Sardar Hukam Singh. He is no more. But he has, for the benefit of the entire nation, left behind him an indelible contribution to parliamentary democracy in our country. Sir, we pay our tribute to the departed soul. We request you to convey our feelings and our condolences to the bereaved family.

SHRI CHITTA BASU (Barasat) : Mr. Speaker, Sir, I join you, the Prime Minister and other distinguished Members of this House in expressing on my behalf and also on behalf of my party a deep sense of feeling and shock at the passing away of Sardar Hukam Singh, the former Speaker of this august House. As a Speaker of this august House, Sir, it is to be reminded that he was a jealous defender of the dignity and decorum of the House. He was a crusader for the sovereignty and supremacy of the Parliament. Sir, as you know, he spared no pains to strengthen the roots of the

parliamentary democracy in our country. His were the constant efforts to make this House a true and an objective mirror of the hopes and aspirations of the vast masses of our nation. He was one of the crusaders who wanted to transform this Parliament as an effective instrument to bring about structural changes in the socio-economic conditions of our country. I once again express my deep feelings and would request you to convey the same to the members of the bereaved family.

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : जनाबे वाला, आपके, प्राइम मिनिस्टर साहबा और अपोजीशन के बाकी रहनुमाओं के जजबात के साथ मैं अपने आपको वाबस्ता करता हूँ जिनका इजहार सरदार हुकम सिंह के लिए, किया गया है, जो जिन्होंने हमारे पार्लिमेन्टी निजाम में स्पीकर के तौर पर और यहां के एडमिनिस्ट्रेशन में शानदार काम किया है। आज उनकी वफात हो गई है। मैं अपने और अपनी पार्टी के जजबात उनके साथ शामिल करता हूँ लेकिन साथ ही यह तबक्को रखता हूँ कि जो कामे-अजीम सरदार हुकम सिंह ने किया, हमारी अजीम जम्हूरियत, पार्लियामेंट के स्पीकर के तौर पर और जिसके बारे में हमारा यह नाज रहा है कि दुनिया की अजीम जम्हूरियत है और इस निजाम में जो स्पीकर का मुकाम है, इस सैक्रेटरियट का मुकाम है—हम यह समझेंगे कि सरदार हुकम सिंह की जो खिदमात हैं उनकी रोशनी में हम इस जम्हूरी निजाम को और ज्यादा मजबूत बनायेंगे, और जम्हूरियत के अन्दर स्पीकर का जो रोल होगा, वह गैर-जानिबदारी, उसूल-परस्ती और मुसावियान: सुलूक होगा। और तमाम पार्टियों की तबक्कात से जो चीजें वर्जित: हैं, उनको और मुजबूत किया जाएगा। मैं ऐसा समझता हूँ कि इस वक्त जब मुल्क के अन्दर इस किस्म के ख्यालात बढ़ रहे हैं और हमारी जम्हूरियत को एक खतरा है और यह खतरा रूलिंग पार्टी की तरफ से हो रहा है, इस बात पर ध्यान दिया जाएगा।... (व्यवधान)...

SHRI KAMAL NATH : Sir, this should

be expunged. This should not go on record.

(Interruptions)

श्री अब्दुल रशीद काबुली : दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि सरदार हुकम सिंह पंजाब से वाबस्ता रहे हैं और पंजाब के हालात के बारे में जो उनके ख्यालात थे, उनको कायम रखा जाए। ... (व्यवधान) ...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष जी, जहां तक रूलिंग पार्टी का सवाल है, जम्मू व काश्मीर में रूलिंग पार्टी इनकी है, इसको ये ध्यान में रखें।

SHRI C. CHINNASWAMY (Gobichettipalayam) : Mr. Speaker, Sir, today we have lost a great administrator and a great parliamentarian. I would request you to convey our deep sorrow and feelings to the bereaved family.

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) अध्यक्ष जी, हमारे इस सदन के भूतपूर्व अध्यक्ष सरदार हुकम सिंह आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। उनके बारे में जो भावनाएं इस सदन में व्यक्त की गई हैं, मैं पूरी तरह से अपने को उनके साथ सम्बद्ध करना चाहता हूँ।

मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ। सरदार हुकम सिंह जी अपनी युवावस्था से अपने संगठन के काम की दक्षता के लिए जाने जाते थे और जब उन्होंने सक्रिय राजनीति से अपने को अलग किया, तो उन्होंने अपने देश और अपने समाज के हित के लिए अपनी उस संगठन की शक्ति का योगदान दिया और सक्रिय राजनीति से अलग होने के बाद केवल दो काम उन्होंने अपने जीवन में लिये। एक तो छोटे बच्चों के सम्बन्ध में जो संस्थाएं काम कर रही थीं, उनमें बच्चों की भलाई के लिए अपना योगदान दिया। यद्यपि उनकी अपनी कोई सन्तान न थी उन्होंने एक बच्ची को गोद लिया था और बच्चों की भलाई के लिए अपनी सारी शक्ति अपनी ज्यादा उम्र के बावजूद और अपने गिरते हुए स्वास्थ्य के बावजूद, लगा दी। बच्चों के लिए जो

काम होते थे उनमें उन्होंने अपना योगदान दिया और सामाजिक और धार्मिक कामों के लिए जबकि आज देश में ऐसे लोगों की आवश्यकता है जोकि समाज को एक नई दिशा दे सकें अपने योगदान के जरिये, ऐसे वक्त में उनका हमारे बीच से उठना लोगों को महसूस होगा। मैं उनके प्रति और उनके तमाम प्रशंसनीय कार्यों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

**श्री जगजीवन राम (सासाराम) :** अध्यक्ष जी, सरदार हुकुम सिंह जिस पीढ़ी के प्रतीक थे उसके लोग एक के बाद एक उठते चले जा रहे हैं। उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी और उनका कार्य-क्षेत्र बहुत विस्तृत था और किस पहलू पर कहा जाए और किस पर न कहा जाए, मैं असमंजस में पड़ जाता हूँ।

जब वे इस पद पर आए थे तो सारा जीवन न्याय दिलाने की अनुभूति को साथ ले कर आए थे। इसलिए यहां भी बैठ करके उन्होंने न्याय दिलाने का प्रयत्न किया और उन्होंने जो कुछ भी रूलिंग्स दी हैं, उनको आज भी देखा जाए, तो मालूम होगा कि सदन के भिन्न-भिन्न हिस्सों को न्याय दिलाने में वे हिचकते नहीं थे। यह एक बड़ी चीज थी। मैंने जैसाकि पहले कहा है कि उनका कार्य-क्षेत्र बहुत विस्तृत था। सदन के भीतर और

सदन के बाहर चाहे जिस पद पर भी वे रहे हों, इन्सानियत को कभी भी उन्होंने नहीं खोया और यही कारण था कि उनके साथ जिनकी सहमति नहीं होती थी, वे लोग भी उनकी ओर आकृष्ट होते थे और उनकी प्रशंसा करते थे।

सरदार हुकुम सिंह अकाली दल के थे लेकिन मैं कहूंगा कि वे अच्छे और सच्चे सिख थे। वे एक बहुत बड़े भारतीय थे, प्रजातन्त्र के बहुत बड़े पोषक थे और यह मानते थे कि प्रजातन्त्र को हम जितना सशक्त करेंगे उतना ही देश को शक्तिशाली बनाया जा सकेगा, देश को एकत्रित रखा जा सकेगा।

मैं अधिक समय न लेकर, उनके सम्बन्ध में पूर्ण वक्ताओं ने जो कुछ कहा है, उससे अपने आपको जोड़ता हूँ और उनके प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ।

**MR. SPEAKER :** The House may stand in silence for a short while.

*The Members then stood in silence for a short while.*

**MR. SPEAKER :** As a mark of respect to the deceased, the House stands adjourned to meet again at 11 a.m. tomorrow.

11.55 hrs.

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, July 26, 1983/ Sravana 4, 1905 (Suka).*